

Transliteration–Telugu

Transliteration as per Harvard-Kyoto (HK) Convention
(including Telugu letters – Short e, Short o) -

a A i I u U
R RR IR IRR
e E ai o O au M (H or :)

(e – short | E – Long | o – short | O – Long)

k kh g gh G
c ch j jh J (jn – as in jnAna)
T Th D Dh N
t th d dh n
p ph b bh m
y r l L v
z S s h

raghu patE rAma-zahAna

In the kRti ‘ raghupatE rAma’ – rAga zahAna, zrI tyAgarAja sings praises
of the Lord.

P raghupatE rAma rAkSasa bhIma

A bhRgu suta mada haraNa muni
bRnda vandita caraNa (raghu)

C1 sarasIruha nayana
sajjana hRdaya nikEtana
dharaNI dhara dhIra
sItA manOhara
niravadhi sukhad(A)pramEya
nirupama nArada sugEya
kara dhRta zara jAla nIla
ghana varN(A)mara pAla (raghu)

C2 taruN(A)ruNa nibha caraNa
taraNi vaMza vibhUSaNa
varuN(A)laya mada damana
vAraN(A)vana
karuNAkara gir(I)za cApa
khaNDana nirjita tApa
paripUrN(A)vatAra
para bhAminI dUra (raghu)

C3 hari haya paGkaja bhava nuta
pura vairi parAzara hita
nara vara vESa sugEya
tAraka nAmadhEya
svara jita ghana rava par(E)za
zata bhAskara saGkAza
paripAlita tyAgarAja
pAhi bhakta samAja (raghu)

Gist

O Lord raghupati! O Lord rAma! O Terror of demons!

O Destroyer of arrogance of parazu rAma! O Lord whose holy feet are worshipped by the multitude of sages!

O Lotus Eyed! O Lord residing in the hearts of good people! O Brave One who bore the Earth as varAha! O Lord who has stolen the heart of sItA! O Lord who bestows unceasing happiness or comfort! O Immeasurable Lord! O Peerless Lord! O Lord well-sung by sage nArada! O Lord who wields multitudes of arrows! O Lord who is dark-blue hued like rain-cloud! O Protector of celestials!

O Lord whose feet resembles early dawn sky! O Adornment of the Solar dynasty! O Destroyer of the arrogance of Lord varuNa! O Protector of gajEndra! O Merciful Lord! O Lord who broke the bow of Lord ziva! O Lord who has conquered sorrow or affliction! O Lord whose embodiment is wholesome! O Lord far removed from other women!

O Lord praised by indra and brahma! O Benefactor of Lord ziva and sage parAzara! O Well sung-about Lord who has donned the blessed garb of human! O Lord whose name is the carrier across the Ocean of Worldly Existence! O Lord whose voice excels the thunder of rain-cloud! O Highest Lord! O Lord whose radiance is like a hundred Suns! O Lord who nourishes this tyAgarAja! O Lord found in the society of devotees!

Please protect me.

Word-by-word Meaning

P O Lord raghupati (raghupatiE)! O Lord rAma! O Terror (bhIma) of demons (rAkSasa)!

A O Destroyer (haraNa) of arrogance (mada) of parazu rAma – son (suta) of sage bhRgu lineage! O Lord whose holy feet (caraNa) are worshipped (vandita) by the multitude (bRnda) of sages (muni)!

O Lord raghupati! O Lord rAma! O Terror of demons!

C1 O Lotus (sarasIruha) Eyed (nayana)! O Lord residing (nikEtana) in the hearts (hRdaya) of good people (sajjana)!

O Brave One (dhIra) who bore (dhara) the Earth (dharaNI) as varAha! O Lord who has stolen the heart (manOhara) of sItA!

O Lord who bestows (da) unceasing (niravadhi) happiness or comfort (sukha) (sukhada)! O Immeasurable Lord (apramEya) (sukhadApramEya)! O Peerless Lord (nirupama)! O Lord well-sung (sugEya) by sage nArada!

O Lord who wields (kara dhRta) (literally holds in hand) multitudes (jAla) of arrows (zara)! O Lord who is dark-blue (nIla) hued (varNa) like rain-cloud (ghana)! O Protector (pAla) of celestials (amara) (varNAmara)!

O Lord raghupati! O Lord rAma! O Terror of demons!

C2 O Lord whose feet (caraNa) resembles (nibha) early (taruNa) dawn sky (aruNa) (taruNAruNa)! O Adornment (vibhUSaNa) of the Solar (taraNi) dynasty (vaMza)!

O Destroyer (damana) of the arrogance (mada) of Lord varuNa – one inhabiting (Alaya) the Ocean (varuNa) (varuNALaya)! O Protector (avana) of gajEndra – the elephant (vAraNa) (vAraNAvana)!

O Merciful Lord (karuNAkara)! O Lord who broke (khaNDana) the bow (cApa) of Lord ziva – Lord (Iza) of Mountains (giri) (girIza)! O Lord who has conquered (nirjita) sorrow or affliction (tApa)!

O Lord whose embodiment (avatAra) is wholesome (paripUrNa) (paripUrnAvatAra)! O Lord far removed (dUra) from other (para) women (bhAminI)!

O Lord raghupati! O Lord rAma! O Terror of demons!

C3 O Lord praised (nuta) by indra – one with golden (hari) horse (haya) – and brahmA – abiding (bhava) in Lotus (paGkaja)! O Benefactor (hita) of Lord ziva – enemy (vairi) of demons of tripura (pura) - and sage parAzara!

O Well sung-about (sugEya) Lord who has donned the blessed (vara) garb (vESa) of human (nara)! O Lord whose name (nAmadhEya) is the carrier (tAraka) across the Ocean of Worldly Existence!

O Lord whose voice (svara) excels (jita) the thunder (rava) of rain-cloud (ghana)! O Highest Lord (parEza)! O Lord whose radiance is like (saGkAza) a hundred (zata) Suns (bhAskara)!

O Lord who nourishes (paripAlita) this tyAgarAja! Please protect (pAhi) me, O Lord found in the society (samAja) of devotees (bhakta)!

O Lord raghupati! O Lord rAma! O Terror of demons!

Notes –

C2 – paripUrNAvatAra – Generally kRSNAvatAra is considered as pUrNAvatAra; but zrI tyAgarAja would like to call rAmAvatAra as pUrNAvatAra.

C3 – nara vara vESa sugEya tAraka nAma dhEya – this is how it is given in the book of TKG; however, 'sugEya' is not found in other books. This needs to be checked. Any suggestions ???

C3 – parAzara – Father of sage vyAsa.

Devanagari

प. रघुपते राम राक्षस भीम

अ. भृगु सुत मद हरण मुनि

बृन्द वन्दित चरण (रघु)

च1. सरसीरुह नयन सञ्जन हृदय निकेतन

धरणी धर धीर सीता मनोहर

नि(र)वधि सुख(दा)प्रमेय नि(रु)पम नारद सुगेय

कर धृत शर जाल नील घन व(र्णा)मर पाल (रघु)

च2. तरु(णा)रुण निभ चरण तरणि वंश विभूषण

वरु(णा)लय मद दमन वार(णा)वन

करुणाकर गिरीश चाप खण्डन निर्जित ताप

परिपू(र्णा)वतार पर भामिनी दूर (रघु)

च3. हरि हय पंकज भव नुत पुर वैरि पराशर हित

नर वर वेष सुगेय तारक नामधेय

स्वर जित घन रव परेश शत भास्कर संकाश

परिपालित त्यागराज पाहि भक्त समाज (रघु)

English with Special Characters

pa. raghupatē rāma rākṣasa bhīma

a. bhṛgu suta mada haraṇa muni

br̥nda vandita caraṇa (raghu)

ca1. sarasīruha nayana sajjana hṛdaya nikētana

dharaṇī dhara dhīra sītā manōhara

ni(ra)vadhi sukha(dā)pramēya ni(ru)pama nārada sugēya

kara dhṛta śara jāla nīla ghana va(rṇā)mara pāla (raghu)

ca2. taru(ṇā)ruṇa nibha caraṇa taraṇi vaṃśa vibhūṣaṇa

varu(ṇā)laya mada damana vāra(ṇā)vana

karuṇākara girīśa cāpa khaṇḍana nirjita tāpa

paripū(rṇā)vatāra para bhāminī dūra (raghu)

ca3. hari haya paṅkaja bhava nuta pura vairi parāśara hita

nara vara vēṣa sugēya tāraka nāmadhēya

svara jita ghana rava parēśa śata bhāskara saṅkāśa

paripālita tyāgarāja pāhi bhakta samāja (raghu)

Telugu

ప. రఘుపతే రామ రాక్షస భీమ

అ. భృగు సుత మద హరణ ముని

బృన్ద వన్దిత చరణ (రఘు)

చ1. సరసీరుహ నయన సజ్జన హృదయ నికేతన

ధరణీ ధర ధీర సీతా మనోహర

ని(ర)వధి సుఖ(దా)ప్రమేయ ని(రు)పమ నారద సుగేయ

కర ధృత శర జాల నీల ఘన వ(ర్ణా)మర పాల (రఘు)

చ2. తరు(ణా)రుణ నిభ చరణ తరణి వంశ విభూషణ

వరు(ణా)లయ మద దమన వార(ణా)వన

కరుణాకర గిరీశ చాప ఖణ్డన నిర్జిత తాప

పరిపూ(ర్ణా)వతార పర భామినీ దూర (రఘు)

చ3. హరి హయ పంకజ భవ సుత పుర వైరి పరాశర హిత

నర వర వేష సుగేయ తారక నామధేయ

స్వర జిత ఘన రవ పరేశ శత భాస్కర సంకాశ

పరిపాలిత త్యాగరాజ పాహి భక్త సమాజ (రఘు)

Tamil

ப. ரகு⁴பதே ராம ராக்ஷஸ பீ⁴ம

அ. ப்⁴ருகு³ ஸுத மத³ ஹரண முநி

ப்³ருந்த³ வந்தி³த சரண (ரகு⁴)

ச1. ஸரஸீருஹ நயன

ஸஜ்ஜன ஹ்ருத³ய நிகேதன

த⁴ரணீ த⁴ர தீ⁴ர

ஸீதா மனோஹர

நிரவதி⁴ ஸுக²(தா³)ப்ரமேய

நிருபம நாரத³ ஸுகே³ய

கர த்⁴ருத ஸர ஜால நீல

க⁴ன வர்(ணா)மர பால (ரகு⁴)

ச2. தரு(ணா)ருண நிப⁴ சரண

தரணி வம்ஸ விபூ⁴ஷண

வரு(ணா)லய மத³ த³மன

வார(ணா)வன

கருணாகர கி³(ரீ)ஸ சாப

க²ண்ட³ன நிர்ஜித தாப

பரிபூர்(ணா)வதார

பர பா⁴மினீ தூ³ர (ரகு⁴)

ச3. ஹரி ஹய பங்கஜ ப⁴வ நுத

புர வையி பராஸர ஹித

நர வர வேஷ ஸுகே³ய

தாரக நாமதே⁴ய

ஸ்வர ஜித க⁴ன ரவ ப(ரே)ஸ

ஸத பா⁴ஸ்கர ஸங்காஸ

பரிபாலித த்யாக³ராஜ

பாஹி ப⁴க்த ஸமாஜ (ரகு⁴)

ஓ இரகுபதி! இராமா! அரக்கருக்கு அச்சமூட்டுவோனே!

பிருகு மைந்தன் மதத்தினையொடுக்கியோனே!

முனிவர்கள் தொழும் திருவடியோனே!

ஓ இரகுபதி! இராமா! அரக்கருக்கு அச்சமூட்டுவோனே!

1. கமலக்கண்ணா!

நல்லோர் இதயத்துறையே!

புவியைச் சுமந்த தீரனே!

சீதையின் மனத்தைக் கவர்ந்தோனே!

இடையறா சுகமருளும் அளவிடற்கரியனே!

ஓப்பற்றவனே! நாரதரால் பாடப் பெற்றோனே!

எண்ணற்ற அம்புகள் கையிலேந்துவோனே! கருநீல

வண்ணத்தோனே! அமரரைக் காப்போனே!

ஓ இரகுபதி! இராமா! அரக்கருக்கு அச்சமூட்டுவோனே!

2. இளம் விடியற்காலை நிகர் செந்திருவடியோனே!
 பரிதி குல அணிகலனே!
 கடலரசனின் செருக்கினையடக்கியோனே!
 வாரணத்தினைக் காத்தவனே!
 கருணாகரனே! கிரீசனின் அம்பை
 முறித்தவனே! துயரத்தினை வென்றவனே!
 பரிபூரண அவதாரத்தோனே!
 பிறன் மனைக்கு தூரமானவனே!
 ஓ இரகுபதி! இராமா! அரக்கருக்கு அச்சமூட்டுவோனே!
3. பொற்குதிரையோன் மற்றும் மலரோனால் போற்றப் பெற்றோனே!
 புரமொரித்தோன் மற்றும் பராசர முனிவருக்கினியவனே!
 உயர் மனித வேடமணிந்தோனே! சிறக்க பாடல் பெற்றோனே!
 பிறவிக்கடலை தாண்டிவிக்கும் நாமத்தினையுடையவனே!
 குரலில் பேரிடியினை மிக்கோனே! மேலான தெய்வமே!
 நூறு பரிதிகள் நிகரொளியோனே!
 தியாகராசனைப் பேணுவோனே!
 காப்பாய், தொண்டர் சமூகத்துறைவோனே!
 ஓ இரகுபதி! இராமா! அரக்கருக்கு அச்சமூட்டுவோனே!

பிருகு மைந்தன் - பரசுராமன்
 புவியைச் சமந்தோன் - வராக (பன்றி) அவதாரம்
 வாரணம் - யானை
 கிரீசன் - சிவன்
 பொற்குதிரையோன் - இந்திரன்
 குரலில் பேரிடியினை - குரல் முழக்கத்தினில்

Kannada

ಪ. ರಘುಪತೇ ರಾಮ ರಾಕ್ಷಸ ಭೀಮ

ಅ. ಭೃಗು ಸುತ ಮದ ಹರಣ ಮುನಿ

ಬೃಹ್ಮ ವಂದಿತ ಚರಣ (ರಘು)

ಚೃ. ಸರಸೀರುಹ ನಯನ ಸಜ್ಜನ ಹೃದಯ ನಿಕೇತನ

ಧರಣೀ ಧರ ಧೀರ ಸೀತಾ ಮನೋಹರ

ನಿ(ರ)ವಧಿ ಸುಖ(ದಾ)ಪ್ರಪೇಯ ನಿ(ರು)ಪಮ ನಾರದ ಸುಗೇಯ

ಕರ ಧೃತ ಶರ ಜಾಲ ನೀಲ ಘನ ವ(ರಾ)ಮರ ಪಾಲ (ರಘು)

ಚೃೃ. ತರು(ಣಾ)ರುಣ ನಿಭ ಚರಣ ತರಣಿ ವಂಶ ವಿಭೂಷಣ

ವರು(ಣಾ)ಲಯ ಮದ ದಮನ ವಾರ(ಣಾ)ವನ

ಕರುಣಾಕರ ಗಿರೀಶ ಚಾಪ ಖಣ್ಣನ ನಿರ್ಮಿತ ತಾಪ

ಪರಿಪೂ(ರಣ್ಣ)ವತಾರ ಪರ ಭಾಮಿನೀ ದೂರ (ರಘು)

ಚ೩. ಹರಿ ಹಯ ಪಂಕಜ ಭವ ಸುತ ಪುರ ವೈರಿ ಪರಾಶರ ಹಿತ

ನರ ವರ ವೇಷ ಸುಗೇಯ ತಾರಕ ನಾಮಧೇಯ

ಸ್ವರ ಜಿತ ಘನ ರವ ಪರೇಶ ಶತ ಭಾಸ್ಕರ ಸಂಕಾಶ

ಪರಿಪಾಲಿತ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಪಾಹಿ ಭಕ್ತ ಸಮಾಜ (ರಘು)

Malayalam

ಎ. ರಘುಪತೇ ರಾಢ ರಾಕ್ಷಸ ಡೀಢ

ಆ. ಡ್ಯುಗು ಸುತ ಢರ ಹರಣ ಢುನಿ
ಢ್ಯುಗ ವಗಿತ ಁರಣ (ರಘು)

ಁ1. ಸರಸೀರುಹ ನಯನ ಸಜಜನ ಹ್ಯೂರಯ ನಿಕೇತನ
ಯರಣೀ ಯರ ಯೀರ ಸೀತಾ ಢನೇಾಹರ

ನಿ(ರ)ವಯಿ ಸುವ(ರಾ)ಪ್ರಢೇಯ ನಿ(ರು)ಪಢ ನಾರರ ಸುಗೇಯ
ಕರ ಯುತ ಊರ ಜಾಲ ನೀಲ ಁನ ವ(ರಣಾ)ಢರ ಪಾಲ (ರಘು)

ಁ2. ತರು(ಣಾ)ರುಣ ನಿಡ ಁರಣ ತರಣಿ ವಂಊ ವಿಡ್ಯುಷಣ
ವರು(ಣಾ)ಲಯ ಢರ ರಢನ ವಾರ(ಣಾ)ವನ

ಕರುಣಾಕರ ಗಿರೀಊ ಁಪ ಁಢ್ಢನ ನಿರ್ದೀತ ತಾಪ
ಪರಿಪೂ(ರಣಾ)ವತಾರ ಪರ ಡಾಢಿನೀ ರೂ (ರಘು)

ಁ3. ಹರಿ ಹಯ ಪಂಕಜ ಡವ ನುತ ಪೂರ ವೇರಿ ಪರಾಊರ ಹಿತ
ನರ ವರ ವೇಷ ಸುಗೇಯ ತಾರಕ ನಾಢೇಯ

ಸುರ ಜೀತ ಁನ ರವ ಪರೇಶ ಊತ ಡಾಸ್ಕರ ಸಂಕಾಊ
ಪರಿಪಾಲಿತ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಪಾಹಿ ಡಕತ ಸಢಾಜ (ರಘು)

Assamese

ಪ. ಬಘುಪತೇ ಬಾಢ ಬಾಕ್ಷಸ ಡೀಢ

ಅ. ಡ್ಘು ಸುತ ಢದ ಹರಣ ಢುನಿ

ವ್ಢದ ರಢ್ಢಿತ ಡರಣ (ಬಘು)

ಡ1. ಸರಸೀರುಹ ನಯನ ಸ□ನ ಹದಯ ನಿಕೇತನ (sajjana)

ಧರಣಿ ಧರ ಧೀರ ಸೀತಾ ಢನೇಾಹರ

ನಿ(ಬ)ರಢಿ ಸುಖ(ದಾ)ಪ್ರಢೇಯ ನಿ(ಕ)ಪಢ ನಾಢದ ಸುಗೇಯ

ಕರ ಧ್ತ ಶರ ಜಾಲ ನೀಲ ಘನ ರ(ಣಾ)ಢರ ಪಾಲ (ಬಘು)

ಡ2. ತಕ(ಣಾ)ಕುಣ ನಿಡ ಡರಣ ತರಣಿ ರಂಶ ರಿಡ್ಯುಷಣ

ರಕ(ಣಾ)ಲಯ ಢದ ಢಢನ ರಾ(ಣಾ)ರನ

ಕಕುಣಾಕರ ಗಿರೀಶ ಡಾಪ ಖಗುನ ನಿರ್ದೀತ ತಾಪ

পৰিপূৰ্ণাৱতাৰ পৰ ভামিনী দূৰ (ৰঘু)

চ৩. হৰি হয় পংকজ ভৱ নুত পুৰ বৈৰি পৰাশৰ হিত

নৰ বৰ বেৰ সুগেয় তাৰক নামধেয়

স্বৰ জিত ঘন বৰ পৰেশ শত ভাস্কৰ সংকাশ

পৰিপালিত অগৰাজ পাহি ভক্ত সমাজ (ৰঘু)

Bengali

প. ৰঘুপতে ৰাম ৰাক্ষস ভীম

অ. ভৃগু সূত মদ হৰণ মুনি

বৃন্দ বন্দিত চরণ (ৰঘু)

চ১. সৱসীৱহ নয়ন স□ন হৃদয় নিকেতন (sajjana)

ধৱণী ধৱ ধীৱ সীতা মনোহৰ

নি(ৱ)বধি সুখ(দা)প্ৰমেয় নি(ৱ)পম নাৱদ সুগেয়

কৱ ধৃত শৱ জাল নীল ঘন ব(ৰ্ণা)মৱ পাল (ৰঘু)

চ২. তৰু(ণা)ৰুণ নিভ চরণ তরণি বংশ বিভূষণ

বৰু(ণা)লয় মদ দমন বাৱ(ণা)বন

কৰুণাকৱ গিৱীশ চাপ খণ্ডন নিৰ্জিত তাপ

পৰিপূৰ্ণাৱতাৰ পৰ ভামিনী দূৰ (ৰঘু)

চ৩. হৰি হয় পংকজ ভৱ নুত পুৰ বৈৰি পৰাশৰ হিত

নৰ বৰ বেৰ সুগেয় তাৰক নামধেয়

স্বৰ জিত ঘন বৰ পৰেশ শত ভাস্কৰ সংকাশ

পৰিপালিত অগৰাজ পাহি ভক্ত সমাজ (ৰঘু)

Gujarati

৫. ৱঘুপতে ৱাম ৱাক্ষস ভীম

অ. ভৃগু সূত মদ হৰণ মুনি

বৃন্দ বন্দিত অৱণ (ৱঘু)

৫৭. সৱসীৱহ নয়ন সঙ্ঘন হৃদয় নিষ্টতন

ଧରଣୀ ଧର ଧୀର ସୀତା ମନୋହର
 ନି(ର)ବଧି ସୁଖ(ଘା)ପ୍ରମେୟ ନି(ର)ପମ ନାରଦ ସୁଗୋପ
 କର ଧୂତ ଶର ଲାଲ ନୀଳ ଘନ ବ(ର୍ଣ୍ଣା)ମର ପାଲ (ରଘୁ)
 ଧର. ତର(ଣା)ରାଣ ନିଭ ଧରଣା ତରଣି ବଂଶ ବିଭୂଷଣ
 ବର(ଣା)ଲୟ ମଢ଼ ଢମନ ବାର(ଣା)ବନ
 କରାଣାକର ଗିରୀଶ ଧାପ ଖଣ୍ଡନ ନିର୍ଦ୍ଦିତ ତାପ
 ପରିପୁ(ର୍ଣ୍ଣା)ବତାର ପର ଭାମିନୀ ଝୁର (ରଘୁ)
 ଧୃ. ଝରି ଝୟ ପଂକଜ ଭବ ଗୁତ ପୁର ବୈରି ପରାଶର ଛିତ
 ନର ବର ବେଷ ସୁଗୋପ ତାରକ ନାମଧେୟ
 ଝର ଞିତ ଘନ ଝବ ପରୈଶ ଶତ ଭାଝକର ସଂକାଶ
 ପରିପାଳିତ ଧ୍ୟାଗରାଞ୍ଚ ପାଢ଼ି ଭକ୍ତ ସମାଞ୍ଚ (ରଘୁ)

Oriya

- ପ. ରଘୁପତେ ରାମ ରାକ୍ଷସ ଭୀମ
 ଥ. ଭୃଗୁ ସୁତ ମଦ ହରଣ ମୁନି
 ବୃନ୍ଦ ଝନ୍ଦିତ ଚରଣ (ରଘୁ)
 ଚ୧. ସରସୀରୁହ ନୟନ ସଜନ ହୃଦୟ ନିକେତନ
 ଧରଣୀ ଧର ଧୀର ସୀତା ମନୋହର
 ନି(ର)ଝୟ ସୁଖ(ଦା)ପ୍ରମେୟ ନି(ରୁ)ପମ ନାରଦ ସୁଗୋପ
 କର ଧୂତ ଶର ଜାଲ ନୀଲ ଘନ ଝର୍ଣ୍ଣା)ମର ପାଲ (ରଘୁ)
 ଚ୨. ତରୁ(ଣା)ରୁଣ ନିଭ ଚରଣ ଚରଣି ଝଂଶ ଝିଭୂଷଣ
 ଝରୁ(ଣା)ଲୟ ମଦ ଦମନ ଝାର(ଣା)ଝନ
 କରୁଣାକର ଗିରୀଶ ଚାପ ଝଣ୍ଡନ ନିର୍ଦ୍ଦିତ ଚାପ
 ପରିପୁ(ର୍ଣ୍ଣା)ଝତାର ପର ଭାମିନୀ ଦୂର (ରଘୁ)
 ଚ୩. ହରି ହୟ ପଂକଜ ଭବ ନୁତ ପୁର ବୈରି ପରାଶର ଛିତ
 ନର ଝର ଝେଷ ସୁଗୋପ ତାରକ ନାମଧେୟ
 ସଂଝର ଜିତ ଘନ ରଝ ପରୈଶ ଶତ ଭାଝର ସଂକାଶ
 ପରିପାଳିତ ଧ୍ୟାଗରାଜ ପାହି ଭକ୍ତ ସମାଜ (ରଘୁ)

Punjabi

ਪ. ਰਘੁਪਤੇ ਰਾਮ ਰਾਕਸ਼ਸ ਭੀਮ

ਅ. ਭ੍ਰਿਗੁ ਸੁਤ ਸਦ ਹਰਣ ਮੁਨਿ

ਬ੍ਰਿਨਦ ਵਨਿਦਤ ਚਰਣ (ਰਘੁ)

ਚ੧. ਸਰਸੀਰੁਹ ਨਯਨ ਸੱਜਨ ਹ੍ਰਿਦਯ ਨਿਕੇਤਨ

ਧਰਣੀ ਧਰ ਧੀਰ ਸੀਤਾ ਮਨੋਹਰ

ਨਿ(ਰ)ਵਧਿ ਸੁਖ(ਦਾ)ਪ੍ਰਮੇਯ ਨਿ(ਰੁ)ਪਮ ਨਾਰਦ ਸੁਗੋਯ

ਕਰ ਪ੍ਰਿਤ ਸ਼ਰ ਜਾਲ ਨੀਲ ਘਨ ਵ(ਰਣਾ)ਮਰ ਪਾਲ (ਰਘੁ)

ਚ੨. ਤਰੁ(ਣਾ)ਰੁਣ ਨਿਭ ਚਰਣ ਤਰਣਿ ਵੰਸ਼ ਵਿਭੂਸ਼ਣ

ਵਰੁ(ਣਾ)ਲਯ ਮਦ ਦਮਨ ਵਾਰ(ਣਾ)ਵਨ

ਕਰੁਣਾਕਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਚਾਪ ਖਣਡਨ ਨਿਰਿਜਤ ਤਾਪ

ਪਰਿਪੂ(ਰਣਾ)ਵਤਾਰ ਪਰ ਭਾਮਿਨੀ ਦੂਰ (ਰਘੁ)

ਚ੩. ਹਰਿ ਹਯ ਪੰਕਜ ਭਵ ਨੁਤ ਪੁਰ ਵੈਰਿ ਪਰਾਸ਼ਰ ਹਿਤ

ਨਰ ਵਰ ਵੇਸ਼ ਸੁਗੋਯ ਤਾਰਕ ਨਾਮਯੇਯ

ਸੂਰ ਜਿਤ ਘਨ ਰਵ ਪਰੇਸ਼ ਸ਼ਤ ਭਾਸਕਰ ਸੰਕਾਸ਼

ਪਰਿਪਾਲਿਤ ਤਜਾਰਾਜ ਪਾਹਿ ਭਕਤ ਸਮਾਜ (ਰਘੁ)